

प्रेस नोट दिनांक- 04.11.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 48/2020 धारा 352/324 भादवि0 के वांछित अभियुक्त द्वारिका प्रसाद पुत्र रामनाथ निवासी शीतलपुर तरौंहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा
2. आरक्षी निर्मल कुशवाहा
3. आरक्षी रामकेश कुमार

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त कुटुल सोनकर पुत्र टेढवा सोनकर निवासी बाबाघाट थान राजापुर चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री रवि सिंह

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री अजीत कुमार सिंह चौकी प्रभारी शिवरामपुर तथा उनकी टीम द्वारा दिनांक 03.11.2020 को ग्राम पड़री से अभियुक्त 1. अरुण कुमार पुत्र शिवकुमार 2. पुरुषोत्तम वर्मा पुत्र जगन्नाथ 3. बुद्धविलास वर्मा पुत्र बबलू वर्मा निवासीगण चकला गुरुबाबाब 4. लवलेश आरख पुत्र मईयादीन 5. राजकिशोर कोरी पुत्र रामअवतार निवासीगण पड़री थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 6370/- रुपये व जामातलाशी 920/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

- 1.मालफड़ 6370/- रुपये
- 2.जामातलाशी 920/- रुपये
3. 52 अदद ताश पत्ते

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री अजीत कुमार सिंह चौकी प्रभारी शिवरामपुर
2. आरक्षी शिवनरेश द्विवेदी
3. आरक्षी मंयक तिवारी
4. आरक्षी रणवीर सिंह
5. आरक्षी सुशील
6. आरक्षी अभिषेक सिंह
7. आरक्षी उमेश कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजीव कुमार तथा उनकी टीम द्वारा सर्विलांस सेल टीम की सहायता से कर्वी बस स्टैण्ड के पास से अभियुक्त लवलेश पटेल पुत्र काशी प्रसाद निवासी देहरूचमाफी थाना रैपुरा चित्रकूट को 10 किलो अवैध गांजा व अभियुक्ता ललती पत्नी अवध किशोर निवासी टिटिहरा थाना भरतकूप को 04 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 575/20 व 576/2020 क्रमशः धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.09.2020 को खोह रेलवे क्रासिंग के पास से 80 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया था जिसमें 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त लवलेश पटेल उपरोक्त अपने साथी के साथ मौके से भाग गया था तभी से फरार चल रहा था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 472/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 09.09.2020 से ही अभियुक्त लवलेश पटेल उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे जिसे आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

बरामदगी:-

कुल 14 किलो गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा
3. महिला आरक्षी संगीता कोतवाली कर्वी
4. आरक्षी विजेन्द्र कोतवाली कर्वी
5. आरक्षी रोहित सिंह सर्विलांस सेल
6. आरक्षी आशीष कुमार यादव सर्विलांस सेल

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 04.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम मानिकपुर द्वारा राजकीय बालिका इन्टर कालेज, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम खमरिया धुरेटनपुर, भरतकूप के बस स्टैण्ड व प्रमुख चौराहों में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम डोड़ा माफी व कस्बा मारकुण्डी में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा पुरानी कोतवाली चौराहे पर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर के बाजार में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा विद्यालय एवं कोचिंग सेटरो में जाकर, एण्टी रोमियो टीम द्वारा कोतवाली कर्वी द्वारा चित्रकूट इन्टर कालेज में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़/ग्राम कोरियाडी मढ़ा में एवं अन्य थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा ग्रामों, बाजारों, बस स्टैण्ड, प्रमुख चौराहों, में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया। विभिन्न थाना स्तर की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा आवारा रूप से घूम रहे संदिग्ध लड़कों से पूछताछ की गयी तथा हिदायत दी गयी।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(6). यातायात माह के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 04.11.2020 को यातायात निरीक्षक श्री घनश्याम पाण्डेय एवं यातायात उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु ट्राफिक चौराहा कर्वी, पटेल तिराहा, शम्भू पेट्रोल पम्प तिराहा व कर्वी में वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान तीन सवारी, बिना मास्क, बिना हेलमेट. ओवर स्पीड एवं बिना सीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 95 वाहनों का चालान किया गया। 15 वाहनों से 3000/-रुपये नगद शमन शुल्क व 80 वाहनों से 74500 ई-पेन्डिंग चालान किया गया। इस दौरान वाहन चालकों को पम्पलेट्स के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गयी।